

उपलब्धियां

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रारंभ से 31 मार्च, 2021 तक विभिन्न कार्यक्रमों में प्रशिक्षित अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या ।

पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षित अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या /
हिंदी भाषा	17,05,972
हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण	1,87,836
हिंदी आशुलिपि	31,661
हिंदी कार्यशालाएँ	28,597
अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	5,972
कुल योग	19,60,038

वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियां 31 मार्च, 2021 तक

पाठ्यक्रम का नाम	लक्ष्य	उपलब्धियां
हिंदी भाषा प्रशिक्षण	17,120	15,401
हिंदी टंकण प्रशिक्षण	2,520	2921
हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण	00	121
हिंदी कार्यशालाएं	225	312
अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	03 कार्यक्रम नामन पर आधारित	04 (कार्यक्रम)119 प्रतिभागी

मार्च, 2021 को हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित पूर्णकालिक एवं अंशकालिक केंद्रों का विवरण

क्रम सं.	क्षेत्र	हिंदी भाषा के प्रशिक्षण केंद्र			हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण केंद्र		
		पूर्ण कालिक	अंश कालिक	योग	पूर्ण कालिक	अंश कालिक	योग
1	मध्योत्तर	30	00	30	10	00	10
2	दक्षिण	116	00	116	05	00	05
3	पूर्व	83	00	83	02	00	02
4	पश्चिम	70	00	70	03	00	03
5	पूर्वोत्तर	31	01	32	01	00	01
	योग	330	01	331	21	00	21

मार्च, 2021 को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत संचालित हिंदी भाषा तथा हिंदी टंकण/आशुलिपि के गहन (अल्पकालिक) प्रशिक्षण केंद्रों का विवरण

मध्योत्तर क्षेत्र		दक्षिण क्षेत्र		पूर्व क्षेत्र		पश्चिम क्षेत्र		पूर्वोत्तर क्षेत्र	
हिंदी भाषा	हिंदी टंकण / आशुलिपि	हिंदी भाषा	हिंदी टंकण / आशुलिपि	हिंदी भाषा	हिंदी टंकण / आशुलिपि	हिंदी भाषा	हिंदी टंकण / आशुलिपि	हिंदी भाषा	हिंदी टंकण / आशुलिपि
गहन प्रशिक्षण केंद्र		गहन प्रशिक्षण केंद्र		गहन प्रशिक्षण केंद्र		गहन प्रशिक्षण केंद्र		गहन प्रशिक्षण केंद्र	
नई दिल्ली (1)	नई दिल्ली (1)	हैदराबाद (2)	हैदराबाद (1)	कोलकाता (1)	कोलकाता (1)	बेंगलुरु (3) बड़ोदरा (1)	मुंबई (1) बेंगलुरु (1)	शून्य	शून्य
कुल = 01केंद्र	01 केंद्र	02 केंद्र	01 केंद्र	01 केंद्र	01 केंद्र	04 केंद्र	02 केंद्र	शून्य केंद्र	शून्य केंद्र

- हिंदी भाषा प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा शिक्षण को भी कंप्यूटरीकृत किया गया है तथा संस्थान के भाषा पाठ्यक्रमों के आधार पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सी-डैक, पुणे के सहयोग से हिंदी भाषा स्वयं शिक्षण के लिए "लीला" - प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ के सॉफ्टवेयर विकसित कराए गए हैं। इन सॉफ्टवेयरों द्वारा अंग्रेजी के साथ-साथ चौदह भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदीतर भाषा-भाषी कार्मिक हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये "लीला पैकेज" केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।
- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, चेन्नै, मुंबई, बेंगलूरु, वडोदरा, कोलकाता, हैदराबाद एवं विशाखापट्टनम केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षाएँ सफलतापूर्वक आयोजित की जा रही हैं।
- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 'हिंदी शब्द संसाधन' पुस्तक तैयार की गई है, जिसे पढ़कर और अभ्यास करके कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करना आरंभ कर सकता है। दिनांक 12/4/2010 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का द्वितीय संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण सर्वसाधारण के लिए वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

- संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन -7 की सिफारिश संख्या 16.7 (क) पर राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुपालन में केंद्र सरकार के कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों को हिंदी में प्रवीणता दिलवाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2015-16 से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 22 अप्रैल, 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12012/03/2015-राभा (नीति) के आधार पर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यास आधारित नया पाठ्यक्रम "पारंगत" लागू कर दिया गया है।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 21 दिसंबर, 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-21034/69/2008-राभा (प्रशि.) के अंतर्गत पारंगत परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2021-22 से मिलने वाले एकमुश्त पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है।
- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ, उपयोगकर्ता कार्यालयों की मांग एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 2015 से "पाँच दिवसीय अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम" भी प्रारंभ किए गए हैं।
- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / हिंदी शिक्षण योजना द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों यथा - हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की कक्षाओं के गठन संबंधी परिपत्र, महत्वपूर्ण आदेश, परीक्षा परिणाम आदि 'ई-गवर्नेंस' के तहत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर नियमित रूप से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों यथा - हिंदी भाषा प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, पारंगत तथा हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की पाठ्य-पुस्तकें एवं कार्यशाला संदर्शिका संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं।